



# CORDS CABLE INDUSTRIES LTD.

REGD. OFFICE : 94, 1st Floor, Shambhu Dayal Bagh Marg,  
Near Okhla Industrial Area Phase-III,  
Old Ishwar Nagar, New Delhi - 110020  
Tel : +91-11-40551200 ; Fax : +91-11-20887232  
Website : www.cordscable.com ; Email : ccil@cordscable.com  
CIN : L74999DL1991PLC046092

Date: 15.01.2025

|   |  |
|---|--|
| Listing Department (Compliance Cell),<br>National Stock Exchange of India Limited<br>Exchange Plaza,<br>Plot no. C/1, G Block,<br>Bandra Kurla Complex,<br>Bandra (E), Mumbai- 400 051<br><b>Scrip Code: CORDSCABLE</b> | Listing Department (Compliance Cell),<br>Bombay Stock Exchange Ltd.<br>Floor 25, PJ Towers,<br>Dalal Street,<br>Mumbai- 400 001<br><b>Scrip Code: 532941</b> |
|---|--|

**Sub : Newspaper Publication regarding Intimation of Board Meeting**

Dear Sir/Ma'am,

Please find enclosed herewith the copies of the newspapers advertisements published in the Financial Express and Jansatta dated January 15<sup>th</sup>, 2025 regarding intimation of Board Meeting of the Company to consider and approve the Un-audited financial results for the 3<sup>rd</sup> Quarter/9 months ended on December 31<sup>st</sup>, 2024 and other items as per the agenda.

Kindly take the same on your record and acknowledge the receipt.

Thanking you,

Yours Faithfully,  
**FOR CORDS CABLE INDUSTRIES LIMITED**

For Cords Cable Industries Ltd.

*Garima Pant*  
Garima Pant  
Company Secretary  
Company Secretary

**GARIMA PANT**  
Digitally signed by GARIMA PANT  
DN: cn=Garima Pant,  
ou=CORDS CABLE INDUSTRIES LIMITED,  
o=CORDS CABLE INDUSTRIES LIMITED,  
c=IN

**Works :**

(UNIT I) : A-525, E-518, 519, 520, Industrial Area Chopanki, Bhiwadi, Distt. Alwar - 301019 (Rajasthan) Tel. No. : +91-7230003177  
(UNIT II) : SP-239, 240, 241, Industrial Area Kaharani, Bhiwadi, Distt. Alwar - 301019 (Rajasthan) Tel. No. : +91-7230003176

### FORM-G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR MONA GASES PRIVATE LIMITED OPERATING IN REFILLING OF OXYGEN & NITROGEN CYLINDERS AT NEHRU ROAD, RAMGARH CANTT, DIST. HAZARIBAGH, JHARKHAND

Under sub-regulation (1) of regulation 36A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

| RELEVANT PARTICULARS  |   |
|---|---|
| 1. Name of the corporate debtor along with PAN & CIN/ LLP No.   | MONA GASES PRIVATE LIMITED<br>CIN No: U1100JH2004PTC010737  |
| 2. Address of the registered office   | Nehru Road, Ramgarh Cantt, Dist. Hazaribagh, Jharkhand.   |
| 3. URL of website   | NA  |
| 4. Details of place where majority of fixed assets are located  | Nehru Road, Ramgarh Cantt, Dist. Hazaribagh, Jharkhand  |
| 5. Installed capacity of main products / services   | Since, management is non-co-operative, no information available w.r.t. installed capacity   |
| 6. Quantity and value of main products / services sold in last financial year   | Turnover of INR 64,19,527/- as on 31/03/2023 as per Audited Financial Statement for FY 2022-23 (Since, management is non-co-operative, no information available w.r.t. Quantity sold during FY 2022-23) |
| 7. Number of employees/ workmen   | The company is non-operational as on date of Publication of instant form.   |
| 8. Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors are available at URL | Can be sought by writing an email to the RP at <a href="mailto:cirmonogas@gmail.com">cirmonogas@gmail.com</a>   |
| 9. Eligibility for resolution applicants under section 23(2)(h) of the Code is available at URL   | Details can be sought by writing an email to: <a href="mailto:cirmonogas@gmail.com">cirmonogas@gmail.com</a>  |
| 10. Last date for receipt of expression of interest   | 04 <sup>th</sup> February 2025  |
| 11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants  | 14 <sup>th</sup> February 2025  |
| 12. Last date for submission of objections to provisional list  | 19 <sup>th</sup> February 2025  |
| 13. Date of issue of final list of prospective resolution applicants  | 24 <sup>th</sup> February 2025  |
| 14. Date of issue of Information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plan to prospective resolution applicants     | 01 <sup>st</sup> March 2025   |
| 15. Last date of submission of resolution plans   | 1 <sup>st</sup> April 2025  |
| 16. Process email id to submit Expr. of Interest  | <a href="mailto:cirmonogas@gmail.com">cirmonogas@gmail.com</a>  |

Sd/-  
Sanjay Vijay Jeswani  
Resolution Professional,  
Monas Gases Private Limited,  
Reg. No: IBB/PA-001/IP-P-02891/2024-2025/14432,  
Email: [cirmonogas@gmail.com](mailto:cirmonogas@gmail.com)  
Address: Ground Floor, Plot No. 21, Sheela Nagar,  
Gittikhandan, Katoal Road, Nagpur, Maharashtra - 440013.  
Date: 15-01-2025  
Place: Nagpur  
AFA Validity: 30<sup>th</sup> June, 2025.

### CORDS Cords Cable Industries Limited

Registered Office: 94, 1st Floor, Shambhu Dayal Bagh Marg, Near Okhla Industrial Area Phase-III, Old Ishwar Nagar, New Delhi-110020  
Tel: 011-40551200 \* Fax: 011-20887232 \* E-mail: [cil@cordscable.com](mailto:cil@cordscable.com)  
website: [www.cordscable.com](http://www.cordscable.com) \* CIN: L74999DL1991PLC046092

#### NOTICE

Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that 213<sup>th</sup> meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, February 10<sup>th</sup>, 2025 to consider and approve, inter alia, The Un-audited Financial Results alongwith Limited Review Report by the statutory auditor for the 3<sup>rd</sup> Quarter/ 9 months ended on December 31<sup>st</sup>, 2024 and other items as per agenda.

The above information is also available on the website of the company viz, ([www.cordscable.com](http://www.cordscable.com)) and the websites of the Stock Exchanges where Company's shares are listed viz. ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)). In accordance with the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window for dealing in the securities of the Company has already been closed for all the designated persons and their immediate relatives w.e.f January 01, 2025 till 48 hours after the Un-audited Financial Results for the 3<sup>rd</sup> Quarter /9 months ended on December 31<sup>st</sup>, 2024 is made public.

By Order of Board of Directors  
For Cords Cable Industries Limited  
Sd/-  
Garima Pant  
Company Secretary

Place: New Delhi  
Date: January 14, 2025

### WELSPUN ONE PRIVATE LIMITED

(formerly known as Welspun One Logistics Parks Private Limited)  
3rd floor, Welspun House, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai, Maharashtra - 400013

#### PUBLIC NOTICE

##### NOTICE OF SURRENDER OF REGISTRATION AS CO-INVESTMENT PORTFOLIO MANAGER BY Welspun One Private Limited (formerly known as Welspun One Logistics Parks Private Limited) To Whomsoever It May Concern.

NOTICE IS HEREBY GIVEN that Welspun One Private Limited (formerly known as Welspun One Logistics Parks Private Limited) ("WOLP"), being registered under the Companies Act, 2013 with its principal place of business located at 3rd floor, Welspun House, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai, Maharashtra - 400013, India, is in process of submitting application to Securities and Exchange Board of India to surrender its Co-Investment Portfolio Manager registration (Registration No. INP00007997) in terms of the SEBI (Portfolio Managers) Regulation, 2020. We appreciate your attention to this matter.

In case of any communication to be addressed regarding the same please reach out on or before 30 Calendar Days from date of Publication of Public Notice to the below mentioned mail id/contact number or address mentioned below:

|              |  |
|--------------|--|
| Mail id:     | <a href="mailto:refillings_welspunone@welspun.com">refillings_welspunone@welspun.com</a> |
| Contact No.: | +91 226260700  |

### The Kerala Minerals and Metals Ltd

(A Govt. of Kerala Undertaking) Sankaramangalam, Kollam-691 583  
Phone: 0476-2651215 to 2651217, e-mail: [md@kmmil.com](mailto:md@kmmil.com), URL: [www.kmmil.com](http://www.kmmil.com)

#### TENDER NOTICE

For more details please visit E-Tendering Portal, <https://tenders.kerala.gov.in> or [www.kmmil.com](http://www.kmmil.com)

| Sl No. | Tender ID          | Items   |
|--------|--------------------|---|
| 1      | 2024_KMML_720298_1 | For the supply of Plate Inconel-0.5 MT                        |
| 2      | 2025_KMML_725311_1 | For Fabrication & supply of FRP Panels for Filtrate Thickener |
| 3      | 2025_KMML_725315_1 | For Fabrication & supply of Heavy End Reboiler                |
| 4      | 2025_KMML_725599_1 | For the supply of Tray Titanium for Eimco Filter-1 ST         |
| 5      | 2025_KMML_725564_1 | For the supply of Petals for Digester-36M2                    |
| 6      | 2025_KMML_724127_1 | For the supply of Brick acid Resistant for Digester           |
| 7      | 2025_KMML_722635_1 | For the supply of Class 1 Brick Acid Resistant                |
| 8      | 2024_KMML_718587_1 | For the supply of Strip Type Corrugated Heating Element       |
| 9      | 2025_KMML_726087_1 | For the procurement of 3Ton Electric Forklift                 |

Chavara 14.01.2025 Sd/- Managing Director for The Kerala Minerals and Metals Ltd

### AXIS FINANCE LIMITED

CIN: U65921MH1995PLC212675  
Regd. Office: Axis House, C-2, Wadia International Centre, Worli, Mumbai - 400025  
Tel.: 022-43255004, Email ID : [info@axisfinance.in](mailto:info@axisfinance.in), Website : [www.axisfinance.in](http://www.axisfinance.in)

#### EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2024

| Sr. No. | Particulars  | (₹ in Lakhs)                    |                                 |                           |
|---------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|         |  | Quarter ended December 31, 2024 | Quarter ended December 31, 2023 | Year ended March 31, 2024 |
| 1       | Total Income from Operations   | 1,03,542.44                     | 82,086.95                       | 3,15,413.35               |
| 2       | Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)  | 23,500.09                       | 20,978.53                       | 79,454.94                 |
| 3       | Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)   | 23,500.09                       | 20,978.53                       | 79,454.94                 |
| 4       | Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)  | 17,599.05                       | 15,371.29                       | 59,720.07                 |
| 5       | Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) | 18,325.05                       | 15,373.32                       | 59,621.49                 |
| 6       | Paid up Equity Share Capital   | 69,357.05                       | 62,706.38                       | 62,706.38                 |
| 7       | Reserves (excluding Revaluation Reserve)   | 4,47,010.75                     | 3,27,951.13                     | 3,44,158.13               |
| 8       | Securities Premium Account   | 1,76,905.48                     | 1,23,703.04                     | 1,23,703.06               |
| 9       | Net Worth  | 5,16,367.80                     | 3,90,657.51                     | 4,06,864.51               |
| 10      | Paid up Debt Capital/Outstanding Debt  | 31,71,975.09                    | 25,42,379.66                    | 27,94,308.77              |
| 11      | Outstanding Redeemable Preference Shares   | -                               | -                               | -                         |
| 12      | Debt Equity Ratio  | 6.14                            | 6.51                            | 6.87                      |
| 13      | Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations)   |                                 |                                 |                           |
|         | 1. Basic:  | 2.68                            | 2.57                            | 9.93                      |
|         | 2. Diluted:  | 2.68                            | 2.57                            | 9.93                      |
| 14      | Capital Redemption Reserve   | -                               | -                               | -                         |
| 15      | Debt Service Coverage Ratio  | -                               | -                               | -                         |
| 16      | Interest Service Coverage Ratio  | -                               | -                               | -                         |
| 18      | Outstanding redeemable preference shares (quantity and value)  | N.A.                            | N.A.                            | N.A.                      |
| 19      | Current ratio  | N.A.                            | N.A.                            | N.A.                      |
| 20      | Long term debt to working capital  | N.A.                            | N.A.                            | N.A.                      |
| 21      | Bad debts to Account receivable ratio  | N.A.                            | N.A.                            | N.A.                      |
| 22      | Current liability ratio  | N.A.                            | N.A.                            | N.A.                      |
| 23      | Total debts to total assets  | 0.85                            | 0.84                            | 0.85                      |
| 24      | Debtors turnover   | N.A.                            | N.A.                            | N.A.                      |
| 25      | Inventory turnover   | N.A.                            | N.A.                            | N.A.                      |
| 26      | Operating margin (%)   | N.A.                            | N.A.                            | N.A.                      |
| 27      | Net profit margin (%) for the quarter ended  | 17.00%                          | 18.73%                          | 18.08%                    |
| 28      | Sector specific equivalent ratios as on  |                                 |                                 |                           |
|         | a) Gross Stage 3 asset   | 0.65%                           | 0.49%                           | 0.46%                     |
|         | b) Net Stage 3 asset   | 0.33%                           | 0.27%                           | 0.24%                     |
|         | c) CRAR  | 21.22%                          | 18.78%                          | 19.11%                    |
|         | d) Liquidity Coverage Ratio  | 375.37%                         | 297.51%                         | 402.79%                   |

Notes:  
1. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of quarterly financial results are available on the websites of the BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and Axis Finance Limited ([www.axisfinance.in](http://www.axisfinance.in)).  
2. The above financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on January 13, 2025, and are audited by the statutory auditors, as required under the Regulations.  
3. For the items referred in Regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed on [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).  
4. Previous period / year figures have been regrouped / rearranged wherever necessary to conform to the current period/year figures.

For and on behalf of Board of Directors  
AXIS FINANCE LIMITED  
Sd/-  
Sai Giridhar  
Managing Director & CEO  
Date: January 13, 2025 Place: Mumbai

### EKANSH Concepts Limited

FORMERLY KNOWN AS PARAMONE CONCEPTS LIMITED  
CIN: L74110MH1992PLC070070  
Regd. Off.: Office No. 408, Sunteck Crest, Plot No. 3, Behind Mukund Hospital, Andheri Kurla Road, Andheri East, Marol Naka, Mumbai-400059 Tel No: + 91-022-47781806.  
Website: [ekanshconcepts.com](http://ekanshconcepts.com), Email Id: [info@ekanshconcepts.com](mailto:info@ekanshconcepts.com)

#### NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE is hereby given pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 ("Act") and other applicable provisions, if any, of the Act and Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules"), as amended from time to time, read with the General Circular No. 09/2024 dated 19th September 2024, Circular No. 09/2023 dated 25th September 2023, General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022, General Circular No. 3/2022 dated May 05, 2022, General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), that the resolutions appended here-in-below are proposed to be passed by the Members of Ekansh Concepts Limited ("Company") through Postal Ballot only by voting through electronic means ("remote e-voting"). Communication of assent or dissent of the Members would take place only through the remote e-voting system, in relation to the following Special Resolution as set out in the Postal Ballot Notice ("Notice") dated Monday, January 13, 2025:

- Regularisation of Appointment of Mr. Sandeep Mandawewala (DIN: 03053339) as Managing Director of the Company (Special Resolution)
- Regularisation of Appointment of Mrs. Pinki Kedia (DIN: 08455451) as Non-Executive Independent Director of the Company (Special Resolution).

The detailed Explanatory Statement under Section 102 of the Act setting out the material facts concerning the resolutions, forms part of the Notice. The Notice along with the Explanatory Statement is available on the website of the Company i.e. [ekanshconcepts.com](http://ekanshconcepts.com), on the website of the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed i.e. BSE Limited, [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the website of CDSL, [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com).

Members are hereby informed that:

- The Company has completed the Dispatch of Notice with e-mails to the members on Monday, January 13, 2025.
- The Cut-off date for the purpose of ascertaining the eligibility of members to avail remote e-voting facility is Friday, January 10, 2025. The members whose name is recorded in the register of members of the Company or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the Cut-off date shall only be entitled to avail the remote e-voting facility. A person who is not a member as on cut-off date should treat this notice for information purpose only.
- In compliance with the requirements of the MCA Circulars, hard copy of Notice, Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope have not been sent to the members for this Postal Ballot. Members are required to communicate their assent or dissent only through the remote e-voting System. The Company has engaged Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for providing E-voting facility to all its Members.
- The detailed procedure/instructions on the process of remote e-voting including the manner in which the members who have not yet registered their email addresses can register their email address and/or can cast their vote, as specified in the Notice.
- The remote e-voting period will commence from Tuesday, January 14, 2025, 09:00 A.M. (IST) to Wednesday, February 12, 2025, 05:00 P.M. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by thereafter. Once the vote on a resolution is cast by members, no change will be allowed subsequently.
- The Company has appointed Mrs. Nidhi Bajaj, Proprietor of M/s. Nidhi Bajaj & Associates, (Membership No.: A28907) (Certificate of Practice No. 14596), as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- The results of the Postal Ballot will be announced Friday, February 14, 2025. The results, along with Scrutinizer Report, will be displayed at the Registered Office & Corporate Office of the Company and will also be hosted at the Company's i.e. [ekanshconcepts.com](http://ekanshconcepts.com). The result will also be intimated simultaneously to the Stock Exchange where the Company's Shares are listed.
- All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or call on 022-23058542/43

For Ekansh Concepts Limited  
(Formerly known as Paramone Concepts Limited)  
Sd/-  
Mamta Jain  
Company Secretary & Compliance Officer  
Date: January 15, 2025  
Place: Mumbai

### RAYMED LABS LIMITED

A public limited company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956  
Corporate Identification Number: L24111UP1992PLC014240  
Registered Office: C-273, C Block, sector 63, Gautam Buddha Nagar, Noida, Uttar Pradesh - 201301, India.  
Contact Number: +91-120-2426900/+91-9412700300; Fax Number: 0120-2700300;  
Email Address: [raymedlabs@rediffmail.com](mailto:raymedlabs@rediffmail.com), [raymedlabstid@gmail.com](mailto:raymedlabstid@gmail.com); Website: [www.raymedlab.com](http://www.raymedlab.com)

#### PRE-OFFER ADVERTISEMENT AND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT UNDER REGULATION 18(7) IN TERMS OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011

THIS PRE-OFFER ADVERTISEMENT CUM CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT IS ISSUED BY SWARAJ SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED, THE MANAGER TO THE OFFER, ON BEHALF OF MR. NISHANT NATHMAL BAJAJ (ACQUIRER 1), MR. PRASHANT NATHMAL BAJAJ (ACQUIRER 2), MR. HITESH BAJORIA (ACQUIRER 3), MR. TUSHAR PANDIT AWANTE (ACQUIRER 4), AND MRS. URMILA HANSRAJ SHARMA (ACQUIRER 5) COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE ACQUIRERS, FOR ACQUISITION OF UP TO 11,11,110 OFFER SHARES, REPRESENTING 26.00% OF THE VOTING SHARE CAPITAL OF RAYMED LABS LIMITED, AT AN OFFER PRICE OF ₹3.00/- PER OFFER SHARE, PAYABLE IN CASH, TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY, IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF REGULATION 18 (7) OF SEBI (SAST) REGULATIONS ('PRE-OFFER CUM CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT ADVERTISEMENT').

This Pre-Offer cum corrigendum to the Detailed Public Statement Advertisement is to be read in conjunction with the: a) Public Announcement dated Thursday, September 05, 2024 ('Public Announcement'), (b) Detailed Public Statement dated Monday, September 09, 2024, in connection with this Offer, published on behalf of the Acquirers on Monday, September 09, 2024, in Financial Express (English daily) [All India Edition], Jansatta (Hindi daily) [All India Edition], and Mumbai Lakhshadep (Marathi daily) (Mumbai Edition) ('Newspapers'), (c) Draft Letter of Offer dated Thursday, September 12, 2024, filed and submitted with SEBI pursuant to the provisions of Regulation 16 (1) of the SEBI (SAST) Regulations ('Draft Letter of Offer'), (d) Letter of Offer dated Saturday, January 04, 2025, along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement ('Letter of Offer'), (e) Recommendations of the Independent Directors of the Target Company which were approved on Monday, January 13, 2025, and published in the Newspapers on Tuesday, January 14, 2025 ('Recommendations of the Independent Directors of the Target Company') (the Public Announcement, Detailed Public Statement, Draft Letter of Offer, Letter of Offer, Recommendations of the Independent Directors, and this Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum to the Detailed Public Statement of the Target Company are hereinafter collectively referred to as 'Offer Documents') issued by the Manager on behalf of the Acquirers.

Public Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following:

For capitalized terms used hereinafter, please refer to the Paragraph 1 titled as 'Definitions and Abbreviations' on page 8 of the Letter of Offer.

- Offer Price**  
The Offer is being made at a price of ₹3.00/- per Offer Share payable in cash and there has been no revision in the Offer Price.
- Recommendations of the Committee of Independent Directors (CID)**  
A Committee of Independent Directors of the Target Company comprising of Mr. Harsh Prabhakar, as the Chairperson of the IDC and Ms. Poonam Sharma, member of IDC approved their recommendation on the Offer on Monday, January 13, 2025, and published in the Newspapers on Tuesday, January 14, 2025. The IDC Members are of the opinion that the Offer Price to the Public Shareholders of the Target Company is fair and reasonable and is in line with SEBI (SAST) Regulations. Public Shareholders may, therefore, independently evaluate the offer and take an informed decision.
- Other details with respect to Offer**
  - This Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations. There has been no competitive bid to the Offer.
  - The Letter of Offer has been dispatched to the Public Shareholders of the Target Company whose names appear on Thursday, January 02, 2025, being the Identified Date:
    - On Thursday, January 09, 2025, through registered post to those Public Shareholders who have not registered their e-mail addresses with the Depositories/Target Company.
    - On Thursday, January 09, 2025, through electronic mode to all the Public Shareholders whose e-mail addresses had been registered with the Depositories/Target Company.
  - The Draft Letter of Offer dated Thursday, September 12, 2024, was filed and submitted with SEBI pursuant to the provisions of Regulation 16 (1) of the SEBI (SAST) Regulations, for its Observations. In pursuance of which all the observations received from SEBI vide letter bearing reference number SEBI/HO/CFD/CMD/ICR/P/2024/144 dated 31 July 2024, shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in an open offer. Such tendering shall be as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. Accordingly, Public Shareholders holding Equity Shares in physical form as well as eligible to tender their Equity Shares in this Offer as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. Public Shareholders who are holding Equity Shares in physical form and intend to participate in the Offer will be required to approach their respective Selling Broker along with the complete set of documents for verification procedures to be carried out, including the (i) original share certificate(s), (ii) valid share transfer form(s), i.e. Form SH-4, duly filled and signed by the transferees (i.e., by all registered shareholders in same order and as per the specimen signatures registered with the Target Company), and duly witnessed at the appropriate place, (iii) self-attested copy of the shareholder's PAN Card, (iv) Form of Acceptance duly completed and signed in accordance with the instructions contained therein, by joint/participating Public Shareholders whose name(s) appears on the share certificate(s) in the same order in which they hold Equity Shares, and (v) any other relevant documents such as power of attorney, corporate authorization (including board resolution/specimen signature), notarized copy of death certificate and succession certificate or probated will, if the original shareholder has deceased, etc., as applicable. For further information, kindly refer to the Paragraph 8.14, titled as 'Procedure for tendering Equity Shares held in Physical Form' on page 35 of the Letter of Offer.
- Procedure for tendering the Shares in case of non-receipt of the Letter of Offer:** Public Shareholders who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the records of Depositories on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer. In case of non-receipt of the Letter of Offer, such Public Shareholders of the Target Company may download the same from the SEBI website ([www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in)) or obtain a copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares of the Target Company. Alternatively, in case of non-receipt of the Letter of Offer, shareholders holding the Equity Shares may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholders, stating name, address, number of shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of shares tendered and other relevant documents. Such Public Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform to be made available by Stock Exchanges before the closure of the Offer. For further information, kindly refer to the Paragraph 8.17, titled as 'Procedure for tendering Equity Shares in case of non-receipt of the Letter of Offer' on page 37 of the Letter of Offer.
- Status of Statutory and Other Approvals**  
As of date, to the best of the knowledge of the Acquirers, no statutory approvals are required for the Offer except as mentioned in the Letter of Offer. For further information, kindly refer to the Paragraph 7.16, titled as 'Statutory Approvals and conditions of the Offer' at page 32 of the Letter of Offer.
- Procedure for Acceptance and Settlement of Offer**  
The Open Offer will be implemented by the Acquirers through Stock Exchange mechanism made available by BSE Limited in the form of separate window ('Acquisition Window') as provided under the SEBI (SAST) Regulations, SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated 13/01/2015, as amended read along with SEBI Circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated 9 December 2016, as amended, and SEBI Circular bearing number SEBI/HO/CFD/CMD/ICR/P/2024/144 dated 31 July 2024, August 13, 2024, in which shall be marked against the shares of the shareholders participating in the tender offers. Upon finalisation of the entitlement, only accepted quantity of shares shall be debited from the demat account of the shareholders. The ten marked against unaccepted shares shall be released. The detailed procedure for tendering and settlement of shares under the revised mechanism is specified under the Paragraph 8 titled as 'Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer' on page 33 of the Letter of Offer.
- Revised Schedule of Activities**

| Schedule of Activities  | Tentative Schedule Day and Date | ACTUAL SCHEDULE DAY AND DATE (UPON RECEIPT OF SEBI'S OBSERVATION LETTER) |
|---|---------------------------------|--|
| Issue date of the Public Announcement   | Thursday, September 05, 2024    | Thursday, September 05, 2024   |
| Publication date of the Detailed Public Statement in the newspapers   | Monday, September 09, 2024      | Monday, September 09, 2024   |
| Date of filing of the Draft Letter of Offer with SEBI   | Thursday, September 12, 2024    | Thursday, September 12, 2024   |
| Last date for public announcement for a competing offer(s)#   | Tuesday, October 01, 2024       | Tuesday, October 01, 2024  |
| Last date for receipt of comments from SEBI on the Draft Letter of Offer  | Monday, October 07, 2024        | Tuesday, December 31, 2024   |
| Identified Date*  | Wednesday, October 09, 2024     | Thursday, January 02, 2025   |
| Last date for dispatch of the Letter of Offer to the Public Shareholders of the Target Company whose names appear on the register of members on the Identified Date | Wednesday, October 16, 2024     | Thursday, January 09, 2025   |
| Last date of publication in the Newspapers of recommendations of the independent directors committee of the Target Company for this Offer                           | Monday, October 21, 2024        | Tuesday, January 14, 2025  |
| Last date for upward revision of the Offer Price and / or the Offer Size  | Tuesday, October 22, 2024       | Wednesday, January 15, 2025  |
| Last date of publication of opening of Offer public announcement in the newspapers in which the Detailed Public Statement had been published                        | Tuesday, October 22, 2024       | Wednesday, January 15, 2025  |
| Date of commencement of Tendering Period  | Wednesday, October 23, 2024     | Thursday, January 16, 2025   |
| Date of closing of Tendering Period   | Wednesday, November 06, 2024    | Wednesday, January 29, 2025  |
| Last date of communicating the rejection/acceptance and completion of payment of consideration or refund of Equity Shares to the Public Shareholders                | Thursday, November 21, 2024     | Wednesday, February 12, 2025   |

Note:  
\*Date of being in receipt of SEBI Observation Letter  
#The above timelines are prepared based on the timelines provided under the SEBI (SAST) Regulations, pursuant to being in receipt of SEBI's Observation Letter. To clarify, the action set out above may be completed prior to their corresponding dates subject to compliance with the SEBI (SAST) Regulations.  
#There has been no competing offer for this Offer.  
\*Identified Date is only for the purpose of determining the names of the Public Shareholders to whom the Letter of Offer would be sent. All the public shareholders (registered or unregistered) of the Equity Shares (except the Acquirers and the parties to the Share Purchase Agreement) are eligible to participate in this Offer any time before the closure of this Offer.

- Documents for Inspection**  
The copies of the following documents will be available for inspection at the principal place of business of the Manager to the Offer, Swaraj Shares and Securities Private Limited, located at Unit No 304, A Wing, 215 Atrium, Courtyard Marriot, Andheri East, Mumbai-400093, Maharashtra, India on any working day between 10:00 a.m. (Indian Standard Time) and 5:00 p.m. (Indian Standard Time) during the Tendering Period commencing from Thursday, January 16, 2025 to Wednesday, January 29, 2025. Further, in light of SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2020/139 dated July 27, 2020, read with SEBI Circular SEBI/CFD/DCR1/CIR/P/2020/83 dated May 14, 2020, copies of the following documents will be available for inspection to the Public Shareholders electronically during the Tendering Period. The Public Shareholders interested to inspect any of the following documents can send an email from their registered email-ids (including shareholding details) and authority letter in the event the Public Shareholder is a corporate body) with a subject line '[Documents for Inspection - Raymed Labs Limited Open Offer]' to the Manager to the Open Offer at [takover@swarajshares.com](mailto:takover@swarajshares.com), and upon receipt and processing of the received request, access can be provided to the respective Public Shareholders for electronic inspection of documents. For further information, kindly refer to the Paragraph 10 titled as 'Documents for Inspection' on page 47 of the Letter of Offer.
- The Acquirers accept full responsibility for the information contained in this Pre-Offer cum Corrigendum to the Detailed Public Statement Advertisement (other than such information as has been obtained from public sources or provided by or relating to and confirmed by the Target Company) and undertake that they are aware of and will comply with their obligations under the SEBI (SAST) Regulations in respect of this Open Offer. The Acquirers will be severally and jointly responsible for ensuring compliance with the SEBI (SAST) Regulations. The persons signing this Pre-Offer cum Corrigendum to the Detailed Public Statement Advertisement on behalf of the Acquirers have been duly and legally authorized to sign this Letter of Offer.

This Pre-Offer Advertisement and Corrigendum to the Detailed Public Statement will also be accessible on the websites of SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in), the Target Company at [www.raymedlab.com](http://www.raymedlab.com), the Registrar to the Offer at [www.mudrarta.tekzini.com](http://www.mudrarta.tekzini.com), the Manager to the Offer at [www.swarajshares.com](http://www.swarajshares.com), and BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirers  
**SWARAJ**  
SHARES & SECURITIES PRIVATE LIMITED  
Swaraj Shares and Securities Private Limited  
Unit No 304, A Wing, 215 Atrium, Near Courtyard Marriot, Andheri East, Mumbai - 400093, Maharashtra, India  
Telephone Number: +91-22-69649999  
Email Address: [takover@swarajshares.com](mailto:takover@swarajshares.com)  
Investors Grievance Email Address: [investor.relations@swarajshares.com](mailto:investor.relations@swarajshares.com)  
Website: [www.swarajshares.com](http://www.swarajshares.com)  
Contact Person: Mr. Tanmay Banerjee/Ms. Pankita Patel  
SEBI Registration Number: INM00012980  
Validity: Permanent  
Date: Tuesday, January 14, 2025  
Place: Mumbai

On Behalf of the Acquirers  
Sd/-  
Mr. Nishant Nathmal Bajaj  
Acquirer 1

### CORRIGENDUM

Corrigendum to FRIN Sale Notice in the matter of Agron India Limited published on 14.01.2025



**FORM-G**  
**INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR MONA GASES PRIVATE LIMITED**  
**OPERATING IN REFILLING OF OXYGEN & NITROGEN CYLINDERS AT NEHRU ROAD, RAMGARH CANTT, DIST. HAZARIBAGH, JHARKHAND**  
 [Under sub-regulation (1) of regulation 36A of the Hazardous and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016]

**RELEVANT PARTICULARS**

|  |   |
|--|---|
| 1. Name of the corporate debtor along with PAN & CIN/ LLP No.  | <b>MONA GASES PRIVATE LIMITED</b><br>CIN No: U11100JH2004PTC010737  |
| 2. Address of the registered office  | Nehru Road, Ramgarh Cantt, Dist. Hazaribagh, Jharkhand.   |
| 3. URL of website  | NA  |
| 4. Details of place where majority of fixed assets are located.  | Nehru Road, Ramgarh Cantt, Dist. Hazaribagh, Jharkhand  |
| 5. Installed capacity of main products / services  | Since, management is non-co-operative, no information available w.r.t. installed capacity   |
| 6. Quantity and value of main products / services sold in last financial year  | Turnover of INR 64,19,527/- as on 31.03.2023 as per Audited Financial Statement for FY 2022-23 (Since, management is non-co-operative, no information available w.r.t. Quantity sold during FY 2022-23) |
| 7. Number of employees/ workmen  | The company is non-operational as on date of Publication of instant form.   |
| 8. Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors are available at URL. | Can be sought by writing an email to the RP at <a href="mailto:cirmonagases@gmail.com">cirmonagases@gmail.com</a>   |
| 9. Eligibility for resolution applicants under section 23(2)(h) of the Code is available at URL.   | Details can be sought by writing an email to: <a href="mailto:cirmonagases@gmail.com">cirmonagases@gmail.com</a>  |
| 10. Last date for receipt of expression of interest  | 04 <sup>th</sup> February 2025  |
| 11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants   | 14 <sup>th</sup> February 2025  |
| 12. Last date for submission of objections to provisional list   | 19 <sup>th</sup> February 2025  |
| 13. Date of issue of final list of prospective resolution applicants   | 24 <sup>th</sup> February 2025  |
| 14. Date of issue of Information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plan to prospective resolution applicants      | 01 <sup>st</sup> March 2025   |
| 15. Last date of submission of resolution plans  | 1 <sup>st</sup> April 2025  |
| 16. Process email id to submit Expr. of Interest   | <a href="mailto:cirmonagases@gmail.com">cirmonagases@gmail.com</a>  |

Sd/-  
Sanjay Vijay Jeswani  
Resolution Professional,  
Monas Gases Private Limited,  
Reg. No: IBBI/PA-001/IP-P-02891/2024-2025/14432,  
Email: [cirmonagases@gmail.com](mailto:cirmonagases@gmail.com)  
Address: Ground Floor, Plot No. 21, Sheela Nagar,  
Gittikhandan, Katalo Road, Nagpur, Maharashtra - 440013.  
Date: 15-01-2025  
Place: Nagpur  
AFA Validity: 30<sup>th</sup> June, 2025.

**CORDS** Cords Cable Industries Limited  
 Registered Office: 94, 1st Floor, Shambhu Dayal Bagh Marg,  
 Near Okhla Industrial Area Phase-III, Old Ishwar Nagar, New Delhi-110020  
 Tel: 011-40551200 \* Fax: 011-20887232 \* E-mail: [cil@cordscable.com](mailto:cil@cordscable.com)  
 website: [www.cordscable.com](http://www.cordscable.com) \* CIN: L74999DL1991PLC046092

**NOTICE**  
 Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that 213<sup>th</sup> meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, February 10<sup>th</sup>, 2025 to consider and approve, inter alia, The Un-audited Financial Results alongwith Limited Review Report by the statutory auditor for the 3<sup>rd</sup> Quarter/ 9 months ended on December 31<sup>st</sup>, 2024 and other items as per agenda.  
 The above information is also available on the website of the company viz, ([www.cordscable.com](http://www.cordscable.com)) and the websites of the Stock Exchanges where Company's shares are listed viz. ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)). In accordance with the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window for dealing in the securities of the Company has already been closed for all the designated persons and their immediate relatives w.e.f January 01, 2025 till 48 hours after the Un-audited Financial Results for the 3<sup>rd</sup> Quarter / 9 months ended on December 31<sup>st</sup>, 2024 is made public.  
 By Order of Board of Directors  
**For Cords Cable Industries Limited**  
 Sd/-  
**Garima Pant**  
 Company Secretary  
 Place : New Delhi  
 Date : January 14, 2025

**WELSPUN ONE PRIVATE LIMITED**  
 (formerly known as Welspun One Logistics Parks Private Limited)  
 3rd floor, Welspun House, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg,  
 Lower Parel (West), Mumbai, Maharashtra - 400013

**PUBLIC NOTICE**  
**NOTICE OF SURRENDER OF REGISTRATION AS CO-INVESTMENT PORTFOLIO MANAGER BY Welspun One Private Limited**  
 (formerly known as Welspun One Logistics Parks Private Limited)  
 To Whomsoever It May Concern.

NOTICE IS HEREBY GIVEN that Welspun One Private Limited (formerly known as Welspun One Logistics Parks Private Limited) ("WOLP"), being registered under the Companies Act, 2013 with its principal place of business located at 3rd floor, Welspun House, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai, Maharashtra - 400013, India, is in process of submitting application to Securities and Exchange Board of India to surrender its Co-investment Portfolio Manager registration (Registration No. INP00007997) in terms of the SEBI (Portfolio Managers) Regulation, 2020. We appreciate your attention to this matter.  
 In case of any communication to be addressed regarding the same please reach out on or before 30 Calendar Days from date of Publication of Public Notice to the below mentioned mail id/contact number or address mentioned below:

Mail Id: [refillings\\_welspunone@welspun.com](mailto:refillings_welspunone@welspun.com)  
 Contact No. +91 2262607000

**The Kerala Minerals and Metals Ltd**  
 (A Govt. of Kerala Undertaking) Sankaramangalam, Kollam-691 583  
 Phone: 0476-2651215 to 2651217, e-mail: [md@kmmil.com](mailto:md@kmmil.com), URL: [www.kmmil.com](http://www.kmmil.com)

**TENDER NOTICE**  
 For more details please visit E-Tendering Portal, <https://tenders.kerala.gov.in> or [www.kmmil.com](http://www.kmmil.com)

| Sl No. | Tender ID          | Items   |
|--------|--------------------|---|
| 1      | 2024_KMML_720298_1 | For the supply of Plate Inconel-0.5 MT                        |
| 2      | 2025_KMML_725311_1 | For Fabrication & supply of FRP Panels for Filtrate Thickener |
| 3      | 2025_KMML_725315_1 | For Fabrication & supply of Heavy End Reboiler                |
| 4      | 2025_KMML_725599_1 | For the supply of Tray Titanium for Eimco Filter-1 ST         |
| 5      | 2025_KMML_725564_1 | For the supply of Petals for Digester-36M2                    |
| 6      | 2025_KMML_724127_1 | For the supply of Brick acid Resistant for Digester           |
| 7      | 2025_KMML_722635_1 | For the supply of Class 1 Brick Acid Resistant                |
| 8      | 2024_KMML_718587_1 | For the supply of Strip Type Corrugated Heating Element       |
| 9      | 2025_KMML_726087_1 | For the procurement of 3Ton Electric Forklift                 |

Chavara 14.01.2025 Sd/- Managing Director for The Kerala Minerals and Metals Ltd

**AXIS FINANCE LIMITED**  
 CIN: U65921MH1995PLC212675  
 Regd. Office: Axis House, C-2, Wadia International Centre, Worli, Mumbai - 400025  
 Tel.: 022-43255004, Email ID : [info@axisfinance.in](mailto:info@axisfinance.in), Website : [www.axisfinance.in](http://www.axisfinance.in)

**EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2024**  
 (₹ in Lakhs)

| Sr. No. | Particulars  | Quarter ended     | Quarter ended     | Year ended     |
|---------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|         |  | December 31, 2024 | December 31, 2023 | March 31, 2024 |
| 1       | Total Income from Operations   | 1,03,542.44       | 82,086.95         | 3,15,413.35    |
| 2       | Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)  | 23,500.09         | 20,978.53         | 79,454.94      |
| 3       | Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)   | 23,500.09         | 20,978.53         | 79,454.94      |
| 4       | Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)  | 17,599.05         | 15,371.29         | 59,720.07      |
| 5       | Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) | 18,325.05         | 15,373.32         | 59,621.49      |
| 6       | Paid up Equity Share Capital   | 69,357.05         | 62,706.38         | 62,706.38      |
| 7       | Reserves (excluding Revaluation Reserve)   | 4,47,010.75       | 3,27,951.13       | 3,44,158.13    |
| 8       | Securities Premium Account   | 1,76,905.48       | 1,23,703.04       | 1,23,703.06    |
| 9       | Net Worth  | 5,16,367.80       | 3,90,657.51       | 4,06,864.51    |
| 10      | Paid up Debt Capital/Outstanding Debt  | 31,71,975.09      | 25,42,379.06      | 27,94,308.77   |
| 11      | Outstanding Redeemable Preference Shares   | -                 | -                 | -              |
| 12      | Debt Equity Ratio  | 6.14              | 6.51              | 6.87           |
| 13      | Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations)   |                   |                   |                |
|         | 1. Basic:  | 2.68              | 2.57              | 9.93           |
|         | 2. Diluted:  | 2.68              | 2.57              | 9.93           |
| 14      | Capital Redemption Reserve   | -                 | -                 | -              |
| 15      | Debt Service Coverage Ratio  | -                 | -                 | -              |
| 16      | Debt Service Coverage Ratio  | -                 | -                 | -              |
| 17      | Interest Service Coverage Ratio  | -                 | -                 | -              |
| 18      | Outstanding redeemable preference shares (quantity and value)  | N.A.              | N.A.              | N.A.           |
| 19      | Current ratio  | N.A.              | N.A.              | N.A.           |
| 20      | Long term debt to working capital  | N.A.              | N.A.              | N.A.           |
| 21      | Bad debts to Account receivable ratio  | N.A.              | N.A.              | N.A.           |
| 22      | Current liability ratio  | N.A.              | N.A.              | N.A.           |
| 23      | Total debts to total assets  | 0.85              | 0.84              | 0.85           |
| 24      | Debtors turnover   | N.A.              | N.A.              | N.A.           |
| 25      | Inventory turnover   | N.A.              | N.A.              | N.A.           |
| 26      | Operating margin (%)   | N.A.              | N.A.              | N.A.           |
| 27      | Net profit margin (%) for the quarter ended  | 17.00%            | 18.73%            | 18.08%         |
| 28      | Sector specific equivalent ratios as on  |                   |                   |                |
|         | a) Gross Stage 3 asset   | 0.65%             | 0.49%             | 0.46%          |
|         | b) Net Stage 3 asset   | 0.33%             | 0.27%             | 0.24%          |
|         | c) CRAR  | 21.22%            | 18.78%            | 19.11%         |
|         | d) Liquidity Coverage Ratio  | 375.37%           | 297.51%           | 402.79%        |

Notes:  
 1. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of quarterly financial results are available on the websites of the BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and Axis Finance Limited ([www.axisfinance.in](http://www.axisfinance.in)).  
 2. The above financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on January 13, 2025, and are audited by the statutory auditors, as required under the Regulations.  
 3. For the items referred in Regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed on [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).  
 4. Previous period / year figures have been regrouped / rearranged wherever necessary to conform to the current period/year figures.

For and on behalf of Board of Directors  
**AXIS FINANCE LIMITED**  
 Sd/-  
**Sai Giridhar**  
 Managing Director & CEO  
 DIN: 10757486  
 Place: Mumbai  
 Date: January 13, 2025

**EKANSH**  
 Concepts Limited

**Ekansh Concepts Limited**  
 FORMERLY KNOWN AS PARAMONE CONCEPTS LIMITED  
 CIN: L74110MH1992PLC070070  
 Regd. Off.: Office No. 408, Sunteck Crest, Plot No. 3,  
 Behind Mukund Hospital, Andheri Kurla Road, Andheri East,  
 Marol Naka, Mumbai-400059 Tel: No. + 91-022-47781806,  
 Website: [ekanshconcepts.com](http://ekanshconcepts.com), Email Id: [info@ekanshconcepts.com](mailto:info@ekanshconcepts.com)

**NOTICE OF POSTAL BALLOT**  
 NOTICE is hereby given pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 ("Act") and other applicable provisions, if any, of the Act and Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules"), as amended from time to time, read with the General Circular No. 09/2024 dated 19th September 2024, Circular No. 09/2023 dated 25th September 2023, General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022, General Circular No. 3/2022 dated May 05, 2022, General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), that the resolutions appended here-in-below are proposed to be passed by the Members of Ekansh Concepts Limited ("Company") through Postal Ballot only by voting through electronic means ("remote e-voting"). Communication of assent or dissent of the Members would take place only through the remote e-voting system, in relation to the following Special Resolution as set out in the Postal Ballot Notice ("Notice") dated Monday, January 13, 2025:  
 1. **Regularisation of Appointment of Mr. Sandeep Mandawewala (DIN: 03055339) as Managing Director of the Company (Special Resolution)**  
 2. **Regularisation of Appointment of Mrs. Pinki Kedla (DIN: 08455451) as Non-Executive Independent Director of the Company (Special Resolution)**  
 The detailed Explanatory Statement under Section 102 of the Act setting out the material facts concerning the resolutions, forms part of the Notice. The Notice along with the Explanatory Statement is available on the website of the Company i.e. [ekanshconcepts.com](http://ekanshconcepts.com), on the website of the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed i.e. BSE Limited, [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the website of CDSL, [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com).  
**Members are hereby informed that:**  
 1. The Company has completed the Dispatch of Notice by e-mails to the members on Monday, January 13, 2025.  
 2. The Cut-off date for the purpose of ascertaining the eligibility of members to avail remote e-voting facility is Friday, January 10, 2025. The members whose name is recorded in the register of members of the Company or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the Cut-off date shall only be entitled to avail the remote e-voting facility. A person who is not a member as on cut-off date should treat this notice for information purpose only.  
 3. In compliance with the requirements of the MCA Circulars, hard copy of Notice, Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope have not been sent to the members for this Postal Ballot. Members are required to communicate their assent or dissent only through the remote e-voting System. The Company has engaged Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for providing E-voting facility to all its Members.  
 4. The detailed procedure/instructions on the process of remote e-voting including the manner in which the members who have not yet registered their email addresses can register their email address and/or can cast their vote, as specified in the Notice.  
 5. The remote e-voting period will commence from Tuesday, January 14, 2025, 09:00 A.M. (IST) to Wednesday, February 12, 2025, 05:00 P.M. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by thereafter. Once the vote on a resolution is cast by members, no change will be allowed subsequently.  
 6. The Company has appointed Mrs. Nidhi Bajaj, Proprietor of M/s. Nidhi Bajaj & Associates, (Membership No. : A28907) (Certificate of Practice No. 14596), as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process in a fair and transparent manner.  
 7. The results of the Postal Ballot will be announced Friday, February 14, 2025. The results, along with Scrutinizer Report, will be displayed at the Registered Office & Corporate Office of the Company and will also be hosted at the Company's i.e. [ekanshconcepts.com](http://ekanshconcepts.com). The result will also be intimated simultaneously to the Stock Exchange where the Company's Shares are listed.  
 8. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or call on 022-23058542/43

For Ekansh Concepts Limited  
 (Formerly known as Paramone Concepts Limited)  
 Sd/-  
**Mamta Jain**  
 Company Secretary & Compliance Officer  
 Date: January 15, 2025  
 Place: Mumbai

**RAYMED LABS LIMITED**  
 A public limited company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956  
 Corporate Identification Number: L24111UP1992PLC014240  
 Registered Office: C-273, C Block, sector 63, Gautam Buddha Nagar, Noida, Uttar Pradesh - 201301, India.  
 Contact Number: +91-120-2426900 / +91-9412700300; Fax Number: 0120-2700300;  
 Email Address: [raymedlabs@rediffmail.com](mailto:raymedlabs@rediffmail.com), [raymedlabsttd@gmail.com](mailto:raymedlabsttd@gmail.com); Website: [www.raymedlab.com](http://www.raymedlab.com)

THIS PRE-OFFER ADVERTISEMENT CUM CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT IS ISSUED BY SWARAJ SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED, THE MANAGER TO THE OFFER, ON BEHALF OF MR. NISHANT NATHMAL BAJAJ (ACQUIRER 1), MR. PRASHANT NATHMAL BAJAJ (ACQUIRER 2), MR. HITESH BAJORIA (ACQUIRER 3), MR. TUSHAR PANDIT AWANTE (ACQUIRER 4), AND MRS. URMILA HANSRAJ SHARMA (ACQUIRER 5) COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE ACQUIRERS, FOR ACQUISITION OF UP TO 11,11,110 OFFER SHARES, REPRESENTING 26.00% OF THE VOTING SHARE CAPITAL OF RAYMED LABS LIMITED, AT AN OFFER PRICE OF ₹3.00/- PER OFFER SHARE, PAYABLE IN CASH, TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY, IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF REGULATION 18 (7) OF SEBI (SAST) REGULATIONS ('PRE-OFFER CUM CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT ADVERTISEMENT').

This Pre-Offer cum corrigendum to the Detailed Public Statement Advertisement is to be read in conjunction with the: a) Public Announcement dated Thursday, September 05, 2024 ('Public Announcement'), (b) Detailed Public Statement dated Monday, September 09, 2024, in connection with this Offer, published on behalf of the Acquirers on Monday, September 09, 2024, in Financial Express (English daily) [All India Edition], Jansatta (Hindi daily) [All India Edition], and Mumbai Lakhshadep (Marathi daily) (Mumbai Edition) ('Newspapers') (Detailed Public Statement), (c) Draft Letter of Offer dated Thursday, September 12, 2024 filed and submitted with SEBI pursuant to the provisions of Regulation 16 (1) of the SEBI (SAST) Regulations ('Draft Letter of Offer'), (d) Letter of Offer dated Saturday, January 04, 2025, along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement ('Letter of Offer'), (e) Recommendations of the Independent Directors of the Target Company which were approved on Monday, January 13, 2025, and published in the Newspapers on Tuesday, January 14, 2025 ('Recommendations of the Independent Directors of the Target Company') (the Public Announcement, Detailed Public Statement, Draft Letter of Offer, Letter of Offer, Recommendations of the Independent Directors, and this Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum to the Detailed Public Statement of the Target Company are hereinafter collectively referred to as 'Offer Documents') issued by the Manager on behalf of the Acquirers.  
**Public Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following:**  
 For capitalized terms used hereinafter, please refer to the Paragraph 1 titled as 'Definitions and Abbreviations' on page 8 of the Letter of Offer.

**A. Offer Price**  
 The Offer is being made at a price of ₹3.00/- per Offer Share payable in cash and there has been no revision in the Offer Price.

**B. Recommendations of the Committee of Independent Directors ('IDC')**  
 A Committee of Independent Directors of the Target Company comprising of Mr. Harsh Prabhakar, as the Chairperson of the IDC and Ms. Poonam Sharma, a Member of IDC approved their recommendation on the Offer on Monday, January 13, 2025, and published in the Newspapers on Tuesday, January 14, 2025. The IDC Members are of the opinion that the Offer Price to the Public Shareholders of the Target Company is fair and reasonable and is in line with SEBI (SAST) Regulations. Public Shareholders may, therefore, independently evaluate the offer and take an informed decision.

**C. Other details with respect to Offer**  
 1. This Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations. There has been no competitive bid to the Offer.  
 2. The Letter of Offer has been dispatched to the Public Shareholders of the Target Company whose names appear on Thursday, January 02, 2025, being the Identified Date:  
 a) On Thursday, January 09, 2025, through registered post to those Public Shareholders who have not registered their e-mail addresses with the Depositories/Target Company.  
 b) On Thursday, January 09, 2025, through electronic mode to all the Public Shareholders whose e-mail addresses had been registered with the Depositories/Target Company.  
 3. The Draft Letter of Offer dated Thursday, September 12, 2024, was filed and submitted with SEBI pursuant to the provisions of Regulation 16 (1) of the SEBI (SAST) Regulations, for its Observations. In pursuance of which all the observations received from SEBI vide letter bearing reference number SEBI/HO/CFD/CMD/1/2024 dated 13 April 2024, incorporated in the Letter of Offer. There have been no other material changes in relation to the Offer, as otherwise disclosed in the Letter of Offer.  
 4. Please note that a copy of the Letter of Offer is also available and accessible on the websites of SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in), the Target Company at [www.raymedlab.com](http://www.raymedlab.com), the Registrar to the Offer at [www.mudrarta.tekzini.com](http://www.mudrarta.tekzini.com), the Manager to the Offer at [www.swarajshares.com](http://www.swarajshares.com), and BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), from which the Public Shareholders can download/print the same.

**D. Instructions for Public Shareholders**  
 a) **In case of Equity Shares are held in the Dematerialized Form:** The Public Shareholders who are holding Equity Shares in electronic/dematerialized form and who desire to tender their Equity Shares in this Offer shall approach their respective Selling Broker indicating to their Selling Broker the details of Equity Shares that such Public Shareholder intends to tender in this Offer. Public Shareholders should tender their Equity Shares before market hours close on the last day of the Tendering Period. For further information, kindly refer to Paragraph 8.15, titled as 'Procedure for tendering the Equity Shares held in Dematerialized Form' on page 36 of the Letter of Offer.  
 b) **In case of Equity Shares are held in Physical Form:** As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (LODR) Regulations and SEBI's press release dated 3 December 2018, bearing reference no. PR 49/2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository with effect from 1 April 2019. However, in accordance with the circular issued by SEBI bearing reference number SEBI/HO/CFD/CMD/1/2024 dated 13 July 2024, shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in an open offer. Such tendering shall be as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. Accordingly, Public Shareholders holding Equity Shares in physical form as well are eligible to tender their Equity Shares in this Offer as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. Public Shareholders who are holding Equity Shares in physical form and intend to participate in the Offer will be required to approach their respective Selling Broker along with the complete set of documents for verification procedures to be carried out, including the (i) original share certificate(s), (ii) valid share transfer form(s), i.e. Form SH-4, duly filled and signed by the transferees (i.e., by all registered shareholders in same order and as per the specimen signatures registered with the Target Company), and duly witnessed at the appropriate place, (iii) self-attested copy of the shareholder's PAN Card, (iv) Form of Acceptance duly completed and signed in accordance with the instructions contained therein, by (sole/joint) Public Shareholders whose name(s) appears on the share certificate(s) in the same order in which they hold Equity Shares, and (v) any other relevant documents such as power of attorney, corporate authorization (including board resolution/specimen signature), notarized copy of death certificate and succession certificate or probated will, if the original shareholder has deceased, etc., as applicable. For further information, kindly refer to the Paragraph 8.14, titled as 'Procedure for tendering Equity Shares held in Physical Form' on page 35 of the Letter of Offer.  
 c) **Procedure for tendering the Shares in case of non-receipt of the Letter of Offer:** Public Shareholders who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the records of Depositories on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer. In case of non-receipt of the Letter of Offer, such Public Shareholders of the Target Company may download the same from the SEBI website ([www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in)) or obtain a copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares of the Target Company. Alternatively, in case of non-receipt of the Letter of Offer, shareholders holding the Equity Shares may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholders, stating name, address, number of shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of shares tendered and other relevant documents. Such Public Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform to be made available by Stock Exchanges before the closure of the Offer. For further information, kindly refer to the Paragraph 8.17, titled as 'Procedure for tendering Equity Shares in case of non-receipt of the Letter of Offer' on page 37 of the Letter of Offer.

**E. Status of Statutory and Other Approvals**  
 As of date, to the best of the knowledge of the Acquirers, no statutory approvals are required for the Offer except as mentioned in the Letter of Offer. For further information, kindly refer to the Paragraph 7.16, titled as 'Statutory Approvals and conditions of the Offer' at page 32 of the Letter of Offer.

**F. Procedure for Acceptance and Settlement of Offer**  
 The Open Offer will be implemented by the Acquirers through Stock Exchange mechanism made available by BSE Limited in the form of separate window ('Acquisition Window') as provided under the SEBI (SAST) Regulations, SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated 13 April 2015, as amended read along with SEBI Circular CFD/DCR/2016/131 dated 9 December 2016, as amended, and SEBI Circular bearing number SEBI/HO/CFD/DCR-II/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021, issued by SEBI. As per SEBI Circular bearing number SEBI/HO/CFD/DCR-II/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021, a lien shall be marked against the shares of the shareholders participating in the tender offers. Upon finalisation of the entitlement, only accepted quantity of shares shall be debited from the demat account of the shareholders. The lien marked against unaccepted shares shall be released. The detailed procedure for tendering and settlement of shares under the revised mechanism is specified under the Paragraph 8 titled as 'Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer' on page 33 of the Letter of Offer.

**G. Revised Schedule of Activities**

| Schedule of Activities  | Tentative Schedule Day and Date | ACTUAL SCHEDULE DAY AND DATE (UPON RECEIPT OF SEBI'S OBSERVATION LETTER) |
|---|---------------------------------|--|
| Issue date of the Public Announcement   | Thursday, September 05, 2024    | Thursday, September 05, 2024   |
| Publication date of the Detailed Public Statement in the newspapers   | Monday, September 09, 2024      | Monday, September 09, 2024   |
| Date of filing of the Draft Letter of Offer with SEBI   | Thursday, September 12, 2024    | Thursday, September 12, 2024   |
| Last date for public announcement for a competing offer(s) if identified  | Tuesday, October 01, 2024       | Tuesday, October 01, 2024  |
| Date for receipt of comments from SEBI on the Draft Letter of Offer   | Monday, October 07, 2024        | Tuesday, December 31, 2024   |
| Identified Date*  | Wednesday, October 09, 2024     | Thursday, January 02, 2025   |
| Last date for dispatch of the Letter of Offer to the Public Shareholders of the Target Company whose names appear on the register of members on the Identified Date | Wednesday, October 16, 2024     | Thursday, January 09, 2025   |
| Last date of publication in the Newspapers of recommendations of the independent directors committee of the Target Company for this Offer                           | Monday, October 21, 2024        | Tuesday, January 14, 2025  |
| Last date for upward revision of the Offer Price and / or the Offer Size  | Tuesday, October 22, 2024       | Wednesday, January 15, 2025  |
| Last date of publication of opening of Offer public announcement in the newspapers in which the Detailed Public Statement had been published                        | Tuesday, October 22, 2024       | Wednesday, January 15, 2025  |
| Date of commencement of Tendering Period  | Wednesday, October 23, 2024     | Thursday, January 16, 2025   |
| Date of closing of Tendering Period   | Wednesday, November 06, 2024    | Wednesday, January 29, 2025  |
| Last date of communicating the rejection/ acceptance and completion of payment of consideration or refund of Equity Shares to the Public Shareholders               | Thursday, November 21, 2024     | Wednesday, February 12, 2025   |

Note:  
 \*Date of being in receipt of SEBI Observation Letter.  
 -The above timelines are prepared based on the timelines provided under the SEBI (SAST) Regulations, pursuant to being in receipt of SEBI's Observation Letter. To clarify, the action set out above may be completed prior to their corresponding dates subject to compliance with the SEBI (SAST) Regulations.  
 #There has been no competing offer for this Offer.  
 \*Identified Date is only for the purpose of determining the names of the Public Shareholders to whom the Letter of Offer would be sent. All the public shareholders (registered or unregistered) of the Equity Shares (except the Acquirers and the parties to the Share Purchase Agreement) are eligible to participate in this Offer any time before the closure of this Offer.

**H. Documents for Inspection**  
 The copies of the following documents will be available for inspection at the principal place of business of the Manager to the Offer, Swaraj Shares and Securities Private Limited, located at Unit No 304, A Wing, 215 Atrium, Near Courtyard Marriot, Andheri East, Mumbai - 400093, Maharashtra, India on any working day between 10:00 a.m. (Indian Standard Time) and 5:00 p.m. (Indian Standard Time) during the Tendering Period commencing from Thursday, January 16, 2025 to Wednesday, January 29, 2025. Further, in light of SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DCR/2016/139 dated July 27, 2020, read with SEBI Circular SEBI/CFD/DCR/1/2020/83 dated May 14, 2020, copies of the following documents will be available for inspection to the Public Shareholders electronically during the Tendering Period. The Public Shareholders interested to inspect any of the following documents can send an email from their registered email-ids (including shareholding details and authority letter in the event the Public Shareholder is a corporate body) with a subject line '[Documents for Inspection - Raymed Labs Limited Open Offer]' to the Manager to the Offer at [takoveer@swarajshares.com](mailto:takoveer@swarajshares.com), and upon receipt and processing of the received request, access can be provided to the respective Public Shareholders for electronic inspection of documents. For further information, kindly refer to the Paragraph 10 titled as 'Documents for Inspection' on page 47 of the Letter of Offer.  
 The Acquirers accept full responsibility